

# 3+ Review

Hindi translation of 3+ Review



Early Intervention  
Transformation Programme

## प्रिय अभिभावक

प्री-स्कूल के सभी बच्चों को स्कूल आने वाले स्वास्थ्य विज्ञितर द्वारा स्वास्थ्य समीक्षा की पेशकश की जा रही है।

यह आपके बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण समय है। यह महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा आत्मविश्वासी, भरोसेमंद, जिज्ञासु बनें और रिश्तों को विकसित करने और सीखने में सक्षम हो।

जल्द ही आपको और आपके बच्चे को, उसके विकास के बारे में चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञितर के साथ एक बैठक के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा सीखने का आनंद ले सके। यह बैठक आपको अपने बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। जितना अधिक आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के बारे में जानेंगे, उतनी ही आसानी से आप उनकी मदद कर सकेंगे।

अगर आपका बच्चा पहले से ही विभिन्न स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं से समर्थन प्राप्त कर रहा है, तो भी हम उन्हें 3+ समीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।



स्वास्थ्य विजिटर के साथ 3+ समीक्षा की अपाइंटमेंट कैसे तय की जाएगी, इस बारे में आपके प्री-स्कूल प्रिंसिपल/लीडर जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आपको एक दुभाषिया की आवश्यकता है तो कृपया हमें बताएं क्योंकि इसे पहले से बुक करने की आवश्यकता होती है।

- यह आपके प्री-स्कूल/नर्सरी में आयोजित किया जाएगा।
- कृपया अपने बच्चे की लाल किताब (पीसीएचआर) लेकर आएं।

प्रारंभिक हस्तक्षेप परिवर्तन कार्यक्रम (ईआईटीपी) एक उत्तरी आयरलैंड कार्यकारी/अटलांटिक फिलैंथ्रोपीज़ डिलिवरिंग सोशल चेंज सिग्नेचर कार्यक्रम है, जिसे डिलीवरिंग सोशल चेंज फंड, डीओएच, डीई, डीओजे, डीएफसी, डीएफई और अटलांटिक फिलैंथ्रोपीज़ द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।

ईआईटीपी का उद्देश्य प्रारंभिक हस्तक्षेप दृष्टिकोण को अतः स्थापित करके उत्तरी आयरलैंड में बच्चों और युवाओं के परिणामों में सुधार करना है।

